

**DIPLOMA IN WOMEN'S
EMPOWERMENT AND
DEVELOPMENT (DWED)
Term-End Examination
December, 2024**

BWEE-008 : CREDIT AND FINANCE

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 100

Note : (i) Answer any *five* questions.

(ii) All questions carry equal marks.

-
1. Describe the banking procedures for opening an account and availing loans. 20
 2. Explain the indicators for successful group functioning with suitable examples. 20
 3. What is a Balance Sheet ? Explain the forms of a Balance Sheet. 20
 4. Discuss the salient features of credit delivery system and eligibility criteria of loan allocation. 20

5. Discuss the relationship between networks and federations with suitable examples. 20
6. What is 'book-keeping' ? Explain in detail. 20
7. Evaluate the role of SHGs in poverty alleviation. Give suitable examples. 20
8. Write short notes on any *four* of the following :

4×5=20

- (a) Group performance
- (b) Microcredit
- (c) Women's empowerment
- (d) Group fund management
- (e) Journal
- (f) Cash transfer

BWEE-008

**महिला सशक्तिकरण एवं विकास में डिप्लोमा
(डी. डब्ल्यू. ई. डी.)
सत्रांत परीक्षा**

दिसम्बर, 2024

बी.डब्ल्यू.ई.ई.-008 : ऋण एवं वित्त

समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 100

नोट : (i) किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ii) सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. खाता खोलने एवं ऋण लेने के संबंध में बैंक की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। 20
2. एक सफल समूह कार्यप्रणाली के सूचकों का वर्णन उचित उदाहरण देते हुए कीजिए। 20
3. तुलन-पत्र क्या है ? तुलन-पत्र के स्वरूपों का वर्णन कीजिए। 20

4. ऋण वितरण की मुख्य विशेषताओं एवं ऋण आबंटन के पात्रता संबंधी मानदंडों की चर्चा कीजिए। 20
5. नेटवर्क एवं परिसंघों के संबंध की चर्चा उदाहरण देते हुए कीजिए। 20
6. 'बहीखातों का रख-रखाव' क्या है ? सविस्तार बताइए। 20
7. निर्धनता को दूर करने में स्व-सहायता समूहों की भूमिका का मूल्यांकन उचित उदाहरण देते हुए कीजिए। 20
8. निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए : 4×5=20
- (क) समूह कार्यनिष्पादन
- (ख) सूक्ष्म ऋण
- (ग) महिला सशक्तिकरण
- (घ) समूह निधि प्रबंधन
- (ङ) दैनिकी (जरनल)
- (च) रोकड़ हस्तांतरण

× × × × × × ×